

प्रेस नोट दिनांक 07.02.2021

इटावा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अपने अन्य 02 साथियों सहित योजनाबद्ध तरीके से षडयंत्र रचकर स्वयं के अपहरण की झूठी सूचना देने पर किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना इकदिल पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अपने अन्य 02 साथियों सहित षडयंत्र रचकर थाना इकदिल पर अपने ही अपहरण की झूठी सूचना देने पर गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 05.02.2021 को थाना इकदिल पर वादी मनोज कुमार पुत्र हरनाथ राजपूत निवासी मोहल्ला कुम्हरान कस्बा व थाना इकदिल द्वारा अपने भाई सुबोध कुमार की अज्ञात बोलेरो सवार व्यक्तियों द्वारा मानिकपुर मोड से अपहरण कर लेने के संबंध में सूचना दी गई थी । उक्त सूचना के संबंध में तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना इकदिल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 42/21 धारा 364 भादवि बनाम अज्ञात बोलेरो सवार अभियोग पंजीकृत किया गया था एवं उक्त अपहरण की घटना को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षणाधीन/ थाना प्रभारी इकदिल श्री सौरभ सिंह द्वारा थाना इकदिल से पुलिस टीम गठित कर कार्यवाही करते हुए अपहरणकर्ताओं की तलाश में निरंतर दबिशों दी जा रही थीं साथ ही इलैक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर भी पुलिस टीम द्वारा अपहर्त की सकुशल बरामदगी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत थी जिसमें पुलिस टीम द्वारा सफलता प्राप्त करते हुए अपहर्त सुबोध राजपूत को ग्राम मुसावली के पास ईंट भट्टे से सकुशल बरामद कर लिया गया एवं अपहर्त के साथ ही वादी मनोज कुमार एवं एक अन्य व्यक्ति को भी उक्त स्थान से पकड़ लिया गया ।

पुलिस टीम द्वारा पकड़े गये अपहर्त, वादी एवं अन्य अभियुक्त से अपहरण के संबंध में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने कई लोगों से रूपये उधार ले रखे थे जोकि हमसे रूपयों की रोजाना मांग कर रहे थे रूपये देने से बचने के लिए हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से षडयंत्र रचकर सुबोध के अपहरण की झूठी सूचना थाना इकदिल पुलिस को दी थी ।

उक्त अपहरण की घटना के संबंध में थाना इकदिल पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 42/21 धारा 364 भादवि का लोप कर धारा 195,211,120 बी भादवि में समायोजन किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मनोज कुमार पुत्र हरनाथ राजपूत निवासी मोहल्ला कुम्हरान कस्बा व थाना इकदिल

2. सुबोध कुमार पुत्र हरनाथ राजपूत निवासी मोहल्ला कुम्हरान कस्बा व थाना इकदिल

3. राजकुमार पथेरा पुत्र रामशरण निवासी ग्राम अडरूपुर थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर

पुलिस टीम- श्री सौरभ सिंह क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षणाधीन/ थाना प्रभारी, व0उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव, उ0नि0 श्री अवधेश कुमार, उ0नि0 श्री दयानंद पटेल, का0 गोविंद सिंह, का0 जसवंत सिंह ।

सोशल मीडिया सेल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

इटवा